



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052024-254243
CG-DL-E-18052024-254243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946

No. 261]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2024

सा.का.नि. 282(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल पैरा-चिकित्सीय काडर (समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक उनका संबंध सहायक कमांडेंट (सहायक नर्सिंग अधीक्षक) के पद से है उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सहायक कमांडेंट (सहायक नर्सिंग अधीक्षक) गृह मंत्रालय के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (सहायक नर्सिंग अधीक्षक) (समूह 'क') भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के सतंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक कमांडेंट (सहायक नर्सिंग अधीक्षक)	01(2024)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100 रु. – 177500 रु.) में स्तर-10	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रदोन्नति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रदोन्नति:-

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सूबेदार मेजर (सिस्टर-इन-चार्ज) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रूपए) स्तर-8, में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर यथाविहित सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवाके आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परिमर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. निदेशक (चिकित्सा), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. निदेशक (चिकित्सा), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य 	लागू नहीं होता

[फा. सं. I-14015/03/2023/एम.एस.]

पी.एस. डंगवाल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2024

G.S.R. 282(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'A', 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Assistant Commandant (Assistant Nursing Superintendent), except as respects things done or omitted to be done before supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (Assistant Nursing Superintendent), Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Assistant Nursing Superintendent) (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classifications and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
Assistant Commandant (Assistant Nursing Superintendent).	01*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.
Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level -10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500).	Selection.	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
By promotion.
In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>Promotion : From amongst Subedar Major (Sister-in-charge) of Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered four years regular service in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600 - 151100) and have successfully completed two to four weeks of mandatory training in relevant field or area as prescribed from time to time.</p> <p>Note.- Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(12)	
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	
1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force-	Chairman;
2. Director (Medical), Indo-Tibetan Border Police Force—	Member;
3. Deputy Inspector General, Indo- Tibetan Border Police Force -	Member;
4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs-	Member.
Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	
1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force-	Chairman;
2. Director (Medical), Indo-Tibetan Border Police Force –	Member;
3. Deputy Inspector General, Indo- Tibetan Border Police Force -	Member;
4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs-	Member.
Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(13)	
Not applicable.	

[F. No. I.14015/03/2023/MS]

P.S. Dangwal, Dy. Secy.